

भिन्नों का जोड़ (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{4}{9} + \frac{1}{4} =$$

$$\frac{6}{4} + \frac{3}{7} =$$

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} =$$

$$\frac{4}{3} + \frac{5}{7} =$$

$$\frac{1}{7} + \frac{4}{9} =$$


$$\frac{7}{6} + \frac{7}{8} =$$

$$\frac{2}{6} + \frac{6}{7} =$$

$$\frac{4}{7} + \frac{5}{3} =$$

$$\frac{3}{6} + \frac{4}{3} =$$

$$\frac{7}{4} + \frac{4}{8} =$$



भिन्नों का जोड़ (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{4}{9} + \frac{1}{4} = \frac{25}{36}$$

$$\frac{6}{4} + \frac{3}{7} = \frac{27}{14} = 1\frac{13}{14}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \frac{11}{12}$$

$$\frac{4}{3} + \frac{5}{7} = \frac{43}{21} = 2\frac{1}{21}$$

$$\frac{1}{7} + \frac{4}{9} = \frac{37}{63}$$

$$\frac{7}{6} + \frac{7}{8} = \frac{49}{24} = 2\frac{1}{24}$$

$$\frac{2}{6} + \frac{6}{7} = \frac{25}{21} = 1\frac{4}{21}$$

$$\frac{4}{7} + \frac{5}{3} = \frac{47}{21} = 2\frac{5}{21}$$

$$\frac{3}{6} + \frac{4}{3} = \frac{11}{6} = 1\frac{5}{6}$$

$$\frac{7}{4} + \frac{4}{8} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$$